



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 चैत्र 1935 (श0)
(सं0 पटना 266) पटना, मंगलवार, 2 अप्रील 2013

सं0 वन विक्रय (काष्ठ)– 54 / 2012–1187 / प०व०
पर्यावरण एवं वन विभाग

संकल्प

25 मार्च 2013

राज्य विभाजन के उपरान्त उत्तरवर्ती बिहार में राजकीय व्यापार की संरचना उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्य के उपभोक्ताओं को विभाग के वनगारों से वन पदार्थ की उपलब्धता सुलभ नहीं हो पाने के कारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के पत्रांक 11/रा०व्या०-08/03-1294, दिनांक 27.03.2004 से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में अवस्थित वनगारों से उपभोक्ताओं को डिपों मूल्य (वन पदार्थ का अधिसूचित विक्रय मूल्य) पर ग्रेड एक के वन पदार्थ (काष्ठ, बल्ला एवं जलावन) की आपूर्ति के लिए विभागीय पदाधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन तथा इसके लिये शर्त एवं प्रक्रिया का निर्धारण पर्यावरण एवं वन विभाग के संकल्प संख्या 1868 दिनांक 02.07.2004 के तहत किया गया।

वर्तमान में राज्य के वनों की कटाई/विदोहन कार्य पूर्ण रूप से बंद रहने के कारण राज्य के वनागारों में पर्याप्त मात्रा के काष्ठ उपलब्ध नहीं है तथा अच्छी गुणवत्ता वाली काष्ठ उपलब्धता की संभावना नहीं है। अतएव वनागारों से उपभोक्ताओं को वन पदार्थ (काष्ठ, बल्ला एवं जलावन) की आपूर्ति से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या 1868 दिनांक 02.07.2004 को निरस्त किया जाता है।

2. यह संकल्प निर्गत तिथि में प्रभावी होगा।

आदेश:—इस संकल्प को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 266-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>